



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बुधवार, दिनांक 19 मई, 2021
29 वैशाख, शक संवत्, 1943

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(पटल कार्यालय)

संख्या : 817/वि०स०/प०का०/०७(प)/2019
लखनऊ, दिनांक 19 मई, 2021

अधिसूचना

प्रकीर्ण

चूंकि, इस सचिवालय की अधिसूचना संख्या : 1282/वि०स०/प०का०/०७(प)/2019, दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 द्वारा वर्ष 2019-2020 हेतु गठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की याचिका समिति में श्री सुखदेव राजभर, सदस्य, विधान सभा (आजमगढ़) को श्री अध्यक्ष द्वारा सदस्य नाम-निर्दिष्ट किया गया था;

और, चूंकि, अब श्री अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा याचिका समिति में श्री सुखदेव राजभर, सदस्य, विधान सभा (आजमगढ़) के स्थान पर श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा (अम्बेडकरनगर) को दिनांक 17 मई, 2021 से सदस्य नाम-निर्दिष्ट कर दिया गया है;

अतः सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उपरिसन्दर्भित समिति में उपर्युक्त नाम-निर्दिष्ट सदस्य, शेष कालावधि के लिए समिति के सदस्य नाम-निर्दिष्ट समझे गये हैं।

आज्ञा से,
बृज भूषण दुबे,
विशेष सचिव।